



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 03.12.2022

1-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा अरुण कुमार की हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर आलाकल चाकू व पत्थर का टुकड़ा व घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बरामद।

दिनांक 03.12.2022 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा अरुण कुमार की हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त आकाश पुत्र मैनपाल निवासी मौहल्ला कैलाशपुरम, नई बस्ती, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के तिलपता चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर आलाकल चाकू व पत्थर का टुकड़ा व घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्विफ्ट डिजायर रजि नं0 डीएल 3 एसीजेड 6630 बरामद की गई है।

घटना का विवरण:

अभियुक्त आकाश के भाई विकास का दादरी ओवर ब्रिज के नीचे पान का खोखा है। जहां मृतक अरुण कुमार आता-जाता था तथा सिगरेट/गुटखा लेता रहता था और पैसे नहीं देता था। दिनांक 20.11.2022 की रात्रि समय करीब 10.00 बजे के लगभग मृतक अरुण ने सिगरेट ली और पैसे नहीं दिये जिस पर दोनो में कहासुनी हुई जिसका बीच बचाव अभियुक्त आकाश ने कराया। मृतक अरुण कुमार ने आकाश से कहा कि तुम्हारा भाई पैसा मांगता है हम उसे जान से मार देगे। आकाश और मृतक अरुण कुमार दोनो नशे में थे। मृतक की बात सुनकर आकाश द्वारा मृतक को मारने की योजना बनाई गयी। आकाश ने मृतक अरुण कुमार को अपनी कार स्विफ्ट डिजायर में बैठाकर दादरी में ओवरब्रिज के पास शराब खरीदी और शराब पिलाई, जब मृतक अरुण कुमार का नशा ज्यादा हो गया तो अभियुक्त आकाश ने कार को निमपो कम्पनी के पास ग्राम देवला, थाना सूरजपुर में नाले के किनारे लगा कर अरुण कुमार का गाड़ी में ही गला काट दिया तथा जब वह अधमरा हो गया तो उसे नाले में फेंक दिया फिर अरुण कुमार के सिर पर पत्थर से वार किया जिससे अरुण कुमार की मृत्यु हो गयी थी।

अभियुक्त का विवरण:

आकाश पुत्र मैनपाल निवासी मौहल्ला कैलाशपुरम, नई बस्ती, कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 358/22 धारा 302/201 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 359/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.एक चाकू आलाकल

2. एक पत्थर का टुकड़ा आलाकल्ल

3. घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार रजि नं0 डीएल 3 एसीजेड 6630



#थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा सर्विलांस की मदद से 03 दिन पूर्व अपहृत 03 नाबालिग लड़कियों को सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपर्द किया गया। परिजनों के चेहरे पर लौटाई खुशियां।

दिनांक 30.12.2022 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 नोएडा पर सूचना दी गयी कि एक महिला रानी सिंह उसकी दो पुत्री (उम्र करीब 17 वर्ष व उम्र करीब 15 वर्ष) सहित 03 लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गयी है। वादी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 501/22 धारा 363/366 भादवि बनाम रानी सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त महोदय सेन्ट्रल नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा 03 टीमों को गठन किया गया तथा अपहृत तीनों लड़कियों की तलाश हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर-63, नोएडा को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो पाया गया कि एक महिला उक्त लड़कियों को ले जाते हुए दिखाई दी, जिस पर आस-पास के रेलवे स्टेशन जैसे- नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार तथा गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों व बस स्टैण्ड एवं अन्य संभावित स्थानों पर चेक किया गया तो उक्त लड़कियां नहीं मिली। इसके बाद मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्ता रानी सिंह द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे मोबाइल नं0 को सर्विलांस की मदद से ट्रेस किया तो मोबाइल फोन बंद मिला तथा इसी क्रम में बार-बार लोकेशन लेने पर पता चला कि लोकेशन मुम्बई में आ रही है। उपरोक्त नम्बर से एक लड़की द्वारा एक नंबर जो टेंपो चालक का था उससे बात की गई और अपनी मम्मी को मुम्बई में होना बताया गया। टेंपो चालक का नंबर लेकर उस से वार्ता की गई तो टेंपो चालक ने बताया कि मैं इनको बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बांद्रा छोड़कर आ गया था। बांद्रा से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को सर्च किया गया तो समय 09:20 बजे पर एक ट्रेन बांद्रा से दिल्ली के लिए थी उम्मीद के अनुसार जिस ट्रेन में यह बैठ सकती थी उसकी जानकारी ली गई कुछ समय बाद अभियुक्ता रानी सिंह के मोबाइल फोन का लोकेशन लिया गया तो लोकेशन गोधरा स्टेशन से पीछे था। उसके बाद पुलिस टीमों में से एक पुलिस टीम ट्रेन के रास्ते तथा दूसरी पुलिस टीम सडक के रास्ते गुजरात तथा मुम्बई के लिए लोकेशन के अनुसार चलते रहे तथा गोधरा आरपीएफ थाना प्रभारी से वार्ता की गई और सूचना से अवगत कराया गया तथा उनके द्वारा रेलवे स्टेशन गोधरा पर टीटी से संपर्क किया गया टीटी द्वारा बताया गया कि एक महिला व तीन लड़कियां गार्ड के डब्बे के पास जनरल बोगी में बैठी हुई है। जिन्हें आरपीएफ द्वारा उतारकर थाने पर बैठाकर पुलिस टीम को जानकारी दी गई और नाम पता भी बताए गए। इसके बाद पुलिस टीम गोधरा रेलवे स्टेशन पर इनके परिजनों को लेकर मौके पर पहुंची व अपहृत 03 नाबालिग लड़कियों को सकुशल तलाश कर लिया गया। जानकारी करने पर पता वाली की एक लड़की उक्त महिला की ही पुत्री है एवं उक्त महिला द्वारा नाबालिग दोनो लड़कियों को बहला फुसलाकर घूमने के बहाने अपने साथ लेके जाया जा रहा था। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों द्वारा नोएडा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई।